

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2010—अग्रहायण 5, शक 1932

भाग 2

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं

1845